

प्रेषिका,  
चिरकुमारित्व,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा।

सेवा में,  
माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,  
माननीय जनपद न्यायाधीश,  
गोण्डा।

**विषय:- चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्ष- 2013-15, 2015 -17, 2017-19 व 2019 - 21 के विवरण प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में:-**

**महोदय,**

अत्यन्त सम्मान पूर्वक निवेदन है कि मैं अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण पत्र, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित कर रही हूँ। देशव्यापी कोविड महामारी व अन्य सार्थक दस्तावेजों की अनुपलब्धता वश मैं अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण पत्र माननीय न्यायालय को समय से प्रेषित नहीं कर सकी। विलम्ब से विवरण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं की जायेगी।

अतः माननीय न्यायालय से सादर निवेदन है कि विलम्ब को क्षमा करते हुए चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण पत्र को स्वीकार करने की कृपा की जाये।

सादर,

दिनांक- 20.12.2021

भवदीया

(चिर कुमारित्व)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा।